

DR. UTTAM KUMAR
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Commerce
S.R.A.P COLLEGE, BARACHAKIA
ONLINE STUDY MATERIAL



Session-2023-27

Semester -5

Paper -MJC8

CORPORATE ACCOUNTING

कोई भी अंशों का आबंटन, जिसके लिए रोकड़ न प्राप्त की गई हो, उसे रोकड़ के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के बदले में अंशों का निर्गमन कहते हैं । उदाहरण के लिए भवन खरीदा तथा भुगतान में अंशों का निर्गमन किया गया । सामान्यतः अंशों का निर्गमन नकद के बदले ही किया जाता है।

अंश के निर्गमन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कंपनियां शेयरधारकों को नए अंश देती हैं, जो या तो व्यक्ति या निगमित हो सकते हैं। अंश का अधिग्रहण करते समय कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करती हैं।

अंश जारी करने की प्रक्रिया के 3 मूल चरण हैं।

1. सूचीपत्र जारी करना
2. आवेदन प्राप्त करना
3. अंश का आवंटन

एक शेयर(या अंश)

एक कंपनी या एक संगठन में स्वामित्व की एक इकाई है। इसे एक परिसंपत्ति के रूप में भी माना जाता है क्योंकि यदि कोई कंपनी लाभ कमाती है, तो आपके द्वारा धारित शेयर के अनुपात में एक राशि आपको लाभांश के रूप में प्रदान की जाएगी। जिस किसी के पास शेयर होता है उसे उस विशिष्ट वित्तीय संपत्ति या संगठन के लिए शेयरधारक कहा जाता है।